



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जून, 2023

आषाढ़ 9, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायतीराज अनुभाग-2

संख्या 1547/33-2-2023

लखनऊ, 30 जून, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-23

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2004 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं -

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी
(प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2023 कही जाएगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी सेवा नियम-4 का नियमावली, 2004, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये संशोधन विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ—एकविद्यमान नियमसंवर्ग—

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे में दी गयी है :-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	उपनिदेशक	03	—	03
2	अभियन्ता	02	—	02
3	कार्य अधिकारी	02	—	02
4	चिकित्साधिकारी (ऐलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक)	02	—	02

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

नियम-5
का
संशोधन

3—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ—एक में दिए गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ—एकविद्यमान नियमभर्ती का स्रोत—

5—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी:-

(1) उपनिदेशक (एक)— $33^{1/3}$ प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(दो) $33^{1/3}$ प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कार्य अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ—दोएतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे में दी गयी है:-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	मुख्य अभियन्ता (सिविल) लेवल-2	—	01	01
2	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	—	01	01
3	अधिशाली अभियन्ता (सिविल)	01	01	02
4	उपनिदेशक (कार्य अधिकारी)	01	—	01
5	अभियन्ता	02	—	02
6	कार्य अधिकारी	02	—	02

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते/सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

स्तम्भ—दोएतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी:-

(1) कार्य अधिकारी — आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) अभियन्ता—आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(3) उपनिदेशक— मौलिक रूप से नियुक्त कार्य अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) अधिशाली अभियन्ता (सिविल)— जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ के मौलिक रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-एक**विद्यमान नियम**

(तीन) 33^{1/3} प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) अभियंता-आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(3) कार्य अधिकारी-आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(4) चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक) - आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

स्तम्भ-दो**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

(5) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)-जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी संवर्ग के मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अधिशासी अभियन्ता के रूप में की गयी न्यूनतम छः वर्ष की सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(6) मुख्य अभियन्ता (सिविल) लेवल-2-जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी संवर्ग के चयन वर्ष के प्रथम दिवस को मौलिक रूप से नियुक्त अधीक्षण अभियन्ताओं में से जिन्होंने कुल 25 वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिए गये विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम-17
का संशोधन

स्तम्भ-एक**विद्यमान नियम**

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

17-(1)-पदोन्नति द्वारा उपनिदेशक की भर्ती की प्रक्रिया- उपनिदेशक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी।

टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम-(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों में विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

स्तम्भ-दो**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

17-(1)-पदोन्नति द्वारा उपनिदेशक/अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता की भर्ती की प्रक्रिया- उपनिदेशक/अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता की पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों तथा उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों, जो उचित समझे जायं, के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम-(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों में विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है।

स्तम्भ—एकविद्यमान नियम

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम-22
का संशोधन

5—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ—एक में दिए गये विद्यमान नियम-22 के स्थान पर स्तम्भ—दो में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ—एकविद्यमान नियमवेतनमान—

22—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान निम्न प्रकार दिये गये हैं :-

पद का नाम	वेतनमान
1—उप निदेशक	10,000—325—15,200 रुपये
2—अभियन्ता	8,000—275—13,500 रुपये
3—कार्य अधिकारी	8,000—275—13,500 रुपये
4—चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक)	8,000—275—13,500 रुपये

स्तम्भ—दोएतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

स्तम्भ—दोएतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

22—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैं :-

पद का नाम	वेतनमान
1—मुख्य अभियन्ता (सिविल) लेवल-2	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13(क) रु0 1,31,100—2,16,600 /—
2—अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 रु0 1,23,100—2,15,900 /—
3— अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 रु0 67,700—2,08,700 /—
4—उप निदेशक (कार्य अधिकारी संवर्ग)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 रु0 67,700—2,08,700 /—
5—अभियन्ता	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100—1,77,500 /—
6—कार्य अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100—1,77,500 /—

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

IN Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is Pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1547/XXXIII-2-2023, dated June 30, 2023 :

No. 1547/XXXIII-2-2023

Dated Lucknow, June 30, 2023

IN exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officers Service Rules, 2004 .

THE UTTAR PRADESH ZILA PANCHAYAT MONITORING CELL GAZETTED OFFICERS (FIRST AMENDMENT) SERVICE RULES, 2023

Short title and
commencement

1. (1) These Rules may be called The Uttar Pradesh Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officers (First amendment) Service Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of
rule 4

2. In the Uttar Pradesh Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officers Service Rules, 2004, hereinafter referred to as, said rules, for existing Rule 4 as set out in Column-1 below, the rules as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- 1*Existing Rules***Cadre-**

4.(1) The strength of the service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the government from time to time.

(2) The strength of service and of each category of posts there in shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below: -

Serial No.	Name of Post	Number of Post		
		Perman-ent	Temp-orary	Total
1	Deputy Director	03	-	03
2	Engineer	02	-	02
3	Karya Adhikari	02	-	02
4	Medical Officer (Allopathic and Ayurvedic or Homeopathic)	02	-	02

Provided that-

(i) The appointing authority may leave unfilled or the governor may hold in abeyance any vacant post, without there by entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

3. In the said Rules, for existing Rule 5 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- 1*Existing Rules***Source of Recruitment-**

5. Recruitment to the various category of posts in the service shall be made from the following sources:-

(1) **Deputy Director** (i) $33\frac{1}{3}$ percent by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Engineers who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

(ii) $33\frac{1}{3}$ percent by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Karya Adhikaris who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

COLUMN- 2*Rules as hereby substituted*

4.(1) The strength of service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub rule (1), be as given below: -

Serial No.	Name of Post	Number of Post		
		Perm-anent	Temp-orary	Total
1	Chief Engineer (Civil) level-2	-	01	01
2	Superintending Engineer (Civil)	-	01	01
3	Executive Engineer (Civil)	01	01	02
4	Deputy Director (Karya Adhikari)	01	-	01
5	Engineer	02	-	02
6	Karya Adhikari	02	-	02

Provided that -

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby' entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary post as he/she may consider proper.

Amendment of Rule-5

COLUMN- 2*Rules as hereby substituted*

5. Recruitment to the various category of posts in the service shall be made from the following sources:-

(1) **Karya Adhikary-** By direct recruitment through the Commission.

(2) **Engineer** - By direct recruitment through the Commission.

(3) **Deputy Director** - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Karya Adhikaris, who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

	<u>COLUMN- 1</u>	<u>COLUMN- 2</u>
	<i>Existing Rules</i>	<i>Rules as hereby substituted</i>
	(iii) 33 ^{1/3} percent by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Medical Officers (Allopathic and Ayurvedic or Homeopathy) who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.	(4) Executive Engineer (Civil) - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Engineers of Zila Panchayat Monitoring Cell, who have completed at least seven years service as such on the first day of the year of recruitment.
	(2) Engineer - By direct recruitment through the Commission.	(5) Superintending Engineer (Civil) - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Executive Engineers of Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officer Cader, who have completed Total fifteen years substantive service on the first day of the year of recruitment including minimum six years service as Executive Engineer.
	(3) Karya Adhikary - By direct recruitment through the Commission.	(6) Chief Engineer(Civil) level-2 - By promotion through Selection Committee from amongst the substantively appointed Superintending Engineers on the first day of selection year, who have completed a total of 25 years of substantive service in the Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officer Cader.
	(4) Medical Officer (Allopathic and Ayurvedic or Hmeopathic) - By direct recruitment through the Commission.	
Amendment of Rule-17	4. In the said Rules, <i>for</i> existing Rule 17 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i> , namely:-	

<u>COLUMN- 1</u>	<u>COLUMN- 2</u>
<i>Existing Rules</i>	<i>Rules as hereby substituted</i>
Procedure for Recruitment by Promotion-	17. (1)- Procedure for recruitment of Deputy Director/ Executive Engineer/Superintending Engineer / Chief Engineer by promotion-
17. (1)- Procedure for deputy director recruitment by promotion- recruitment by promotion of deputy director shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission, Rules, 1992. as amended from time to time.	recruitment by promotion of Deputy Director/ Executive Engineer/ Superintending Engineer/ Chief Engineer shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission, Rules, 1992 as amended from time to time.
NOTE- Nomination of officers for giving representation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section-7 of the Act as amended from time to time.	NOTE- Nomination of officers for giving representation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the selection committee shall be made in accordance with the order made under section-7 of the Act as amended from time to time.

COLUMN-1*Existing Rules*

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule(2) and if it considers necessary, it may interview the candidate also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

COLUMN-2*Rules as hereby substituted*

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule(2) and if it considers necessary, it may interview the candidate also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

5. In the said Rules, *for* existing Rule 22 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

Amendment
of Rule-22

COLUMN-1*Existing Rules***Scales of pay-**

22. (1) Scales of pay - The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

COLUMN-2*Rules as hereby substituted*

22. (1) Scales of pay - The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

COLUMN-1*Existing Rules*

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:-

Name of Post	Scales of pay
1- Deputy Director	Rs. 10,000-325-15200
2- Engineer	Rs. 8000-275-13500
3- Karya Adhikari	Rs. 8000-275-13500
4- Medical officer (Allopathic and Ayurvedic or Homeopathic)	Rs. 8000-275-13500

COLUMN-2*Rules as hereby substituted*

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:-

Name of Post	Scales of pay
1-Chief Engineer (Civil) level-2	Pay matrix Level-13(A) Rs. 1,31,100-2,16,600
2-Superintending Engineer (Civil)	Pay matrix Level-13 Rs. 1,23,100-2,15,900
3-Executive Engineer (Civil)	Pay matrix Level-11 Rs. 67,700-2,08,700
4-Deputy Director (Karya Adhikari cadre)	Pay matrix Level-11 Rs. 67,700-2,08,700
5- Engineer	Pay matrix Level-10 Rs. 56,100-1,77,500
6-Karya Adhikari	Pay matrix Level-10 Rs. 56,100-1,77,500

By order,

MANOJ KUMAR SINGH,

Apar Mukhya Sachiv.